

प्रेस नोट

दिनांक 11.07.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

थाना जामों पुलिस व एसओजी अमेठी द्वारा 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी के 12 मोबाइल फोन के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.07.2022 को थानाध्यक्ष शिवाकान्त पाण्डेय थाना जामो व एसओजी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अदद मोटरसाइकिल पर सवार 03 नफर अभियुक्त 1. आनन्द कुमार गौतम पुत्र जयराम गौतम निवासी पूरे मातादीन तिवारी मजरे बेरारा थाना जायस जनपद अमेठी 2.फिरोज पुत्र मो0 इस्लाम निवासी दुर्गा दुबे मजरे लीही थाना मोहनगंज जनपद अमेठी 3.सपरोज पुत्र इशितखार निवासी पूरे पाण्डेय का पुरवा मजरे बेरारा थाना जायस जनपद अमेठी को गोरियाबाद शारदा सहायक नहर पुलिया के पास से समय करीब 11:30 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों 1.आनन्द कुमार गौतम के कब्जे से चोरी के 04 अदद मोबाइल फोन 2.फिरोज के कब्जे से चोरी के 04 अदद मोबाइल फोन 3.सपरोज के कब्जे से चोरी के 04 अदद मोबाइल फोन व 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग इन्ही 02 मोटरसाइकिलों 1.स्प्लेण्डर प्लस वाहन संख्या यूपी36 पी 8748 2.डिस्कवर वाहन संख्या यूपी 32 डीटी 8873 से घूमफिर कर आने जाने वाले लोगो से मोबाइल छीन लेते है या तो चोरी करके बेच लेते है तथा दिनांक 20.06.2022 को जगदीशपुर जायस रोड पर ग्राम जनापुर के पास एक लड़का मोबाइल लेकर पैदल जा रहा था कि हमलोगों ने रियल मी मोबाइल फोन छीनकर भाग गये थे । थाना जामों द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. आनन्द कुमार गौतम पुत्र जयराम गौतम निवासी पूरे मातादीन तिवारी मजरे बेरारा थाना जायस जनपद अमेठी ।
2. फिरोज पुत्र मो0 इस्लाम निवासी दुर्गा दुबे मजरे लीही थाना मोहनगंज जनपद अमेठी ।
3. सपरोज पुत्र इशितखार निवासी पूरे पाण्डेय का पुरवा मजरे बेरारा थाना जायस जनपद अमेठी ।

बरामदगी:-

- 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
- चोरी के विभिन्न कम्पनियों के 12 अदद मोबाइल फोन ।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 218/22 धारा 392,41/411 भादवि थाना जामों जनपद अमेठी ।
- मु0अ0सं0 219/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जामों जनपद अमेठी ।
- स्प्लेण्डर प्लस वाहन संख्या यूपी36 पी, डिस्कवर वाहन संख्या यूपी 32 डीटी 8873 (207 एमवी एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष शिवाकान्त पाण्डेय थाना जामों जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार वर्मा प्रभारी एसओजी अमेठी ।
3. उ0नि0 पारस नाथ यादव थाना जामों जनपद अमेठी ।
4. हे0का0 राम प्रसाद यादव थाना जामों जनपद अमेठी ।
5. का0 रमाकान्त यादव थाना जामों जनपद अमेठी ।
6. का0 शीतला प्रसाद थाना जामों जनपद अमेठी ।
7. का0 अंकित दीक्षित एसओजी अमेठी ।
8. का0 जितेन्द्र यादव एसओजी अमेठी ।
9. का0 नरेन्द्र मिश्रा एसओजी अमेठी ।